

पाठ -10 सालिम अली

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए

(क) बालक पक्षी को लेकर किसके पास गया?

उ० बालक पक्षी को लेकर अपने चाचा अमीरुद्दीन तैयब जी के पास गया।

(ख) नर बया पक्षी को कब पहचाना जा सकता है?

उ० नर बया पक्षी को केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है जब उसके गले पर पीला धब्बा उभर भर जाता है।

(ग) सलीम अली किस नाम से जाने जाते हैं?

उ० सलीम अली पक्षी विज्ञानी के नाम से जाने जाते हैं।

(घ) सलीम अली ने पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी?

उ० सलीम अली ने बीजगणित और लोगारिदम्स से डर कर पढ़ाई छोड़ दी रे।

(ङ) सालिम जर्मनी क्यों गए थे?

उ० सालिम उच्च प्रशिक्षण के लिए जर्मनी गए थे।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए

(क) सालिम अली को कौन सा सुनहरा अवसर मिला?

उ० सालिम अली को बयां पक्षों के अध्ययन का सुनहरा अवसर मिला।

(ख) पक्षी प्रेमियों से सलीम अली का टकराव क्यों हो जाता है?

उ० पक्षी प्रेमियों से सलीम अली का टकराव इसलिए हो जाता था क्योंकि उनके विचारों को आधिकारिक माना जाने लगा।

(ग) सालिम अली ने अपनी पुस्तक में क्या-क्या जानकारी दी है?

उ० सालिम अली ने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी इसमें चिड़िया के बारे में रोचक जानकारी थी और प्रत्येक पक्षी-जाति का सुंदर चित्र भी। कोई भी अजनबी उस चित्र को देखकर आसानी से पक्षी पहचान सकता है।

(घ) पक्षी पर लिखी गई पुस्तकों में सालिम अली को क्या कमी लगती थी?

उ० क्योंकि उन पुस्तकों में चित्र ही नहीं थे और केवल उकता देना वाला विस्तृत वर्णन था। इसमें उनकी आकृति, वेकहां पाए जाते हैं उनकी प्रजनन की आदतें आदि के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी ऐसी पुस्तकें पक्षियों के प्रति उत्साह बढ़ाने के स्थान पर उसे बिल्कुल खत्म कर देती है इसलिए सालिम अली को वे पुस्तक पसंद नहीं थी।

नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए
मिलार्ड को-----चिड़ियां दिखाई।

(क) मिलार्ड क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया।

उ० मिलार्ड को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भारतीय लड़का यह पूछ रहा है कि उसने कौन-सी चिड़िया मारी है।

(ख) मिलार्ड सालिम अली को कहां ले गए?

उ० वे उसे कमरे में ले गए जहां तरह-तरह के मरे हुए पक्षियों के शरीरों में भूसा भरकर रखा गया था।

(ग) पक्षियों को कैसे रखा गया था?

उ० मरे हुए पक्षियों के शरीरों में भूसा भरकर रखा गया था।

(घ) दराज में सालिम अली ने क्या देखा?

उ० दराज में सालिम अली ने तरह-तरह की चिड़ियां देखी।

पाठ -11 साहसी पुत्र

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए-

(क) मां भगवान से क्या प्रार्थना करती है?

उ० मां संदीप के सकुशल होने की प्रार्थना भगवान से करती है।

(ख) मधु ने मां को क्या सुझाव दिया?

उ० मधु ने मां को घर-घर जाकर चंदा इकट्ठा करने का सुझाव दिया।

(ग) संदीप के साथ क्या हादसा हुआ?

उ० संदीप लोगों को बचाते समय नाव पलटने से बेहोश हो गया था।

(घ) होश आते ही संदीप ने क्या कहा?

उ० मैं, मैं कहां हूँ।

(ङ) संदीप बेहोश कैसे हो गया था?

उ० संदीप नदी/बाढ़ के पानी में नाव डूबने की वजह से बेहोश हो गया था।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए

(क) कुलदीप ने मां को किस आपदा के बारे में सूचना दी?

उ० कुलदीप ने मां को बाढ़ की आपदा के बारे में सूचना दी।

(ख) कुलदीप ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए क्या उपाय सुझाए?

उ० कुलदीप ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए घर-घर जाकर अनाज और धन इकट्ठा करने के उपाय सुझाए।

(ग) संदीप कहां चला गया था?

उ० संदीप बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने चला गया था।

(घ) युवती ने संदीप की बारे में क्या बताया?

उ० युवती ने कहा आप घबराइए नहीं! लोगों को बचाते -बचाते संदीप की नाव उलट गई परंतु उन्हें तो तैरना आता था, उन्होंने वहां भी लोगों की मदद की। जब तक सब लोगों को दूसरे नामों में चढ़ा नहीं लिया, तब तक संदीप नहीं चढ़े लेकिन जैसे ही चढ़ने लगे, सहसा पानी का एक जोरदार रेला आया और भी बह गए।

(ङ) बाढ़ क्यों आती है? लिखिए।

उ० वर्षा का आवश्यकता से अधिक होना तथा कभी-कभी नदी या बांध आदि में दरारें पड़ने या टूटने के कारण तीव्र जल के बहाव से भी बाढ़ आ जाती है।

(च) पाठ के लेखक कौन है?

उ० पाठ के लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है।

नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए-
"क्या ही-----रक्षा करें!"

(क) यदि सभी ऐसा कर सकें, किस काम को करने की बात हो रही है?

उ० बाढ़ पीड़ितों को घर में आश्रय देने की बात हो रही है।

(ख) मां, बहुत-सी किन समस्याओं को खत्म करवाना चाहती है?

उ० मां, मुसौबत के समय लोगों के रहने और खाने की समस्या को खत्म करवाना चाहती है।

(ग) दोनों बेटे कौन-सा सेवा कार्य कर रहे हैं?

उ० दोनों बेटे बाढ़ पीड़ितों को बचाने का कार्य कर रहे हैं।

(घ) मां अपने बेटों की रक्षा के लिए क्यों चिंतित है?

उ० मां अपने बेटे की रक्षा के लिए इसलिए चिंतित है क्योंकि नदी में बाढ़ आई थी और वे वहीं पर गए थे।

(ङ) अचानक क्या समस्या आ गई थी?

उ० अचानक बड़े जोर का तूफान आया और नदी में बाढ़ आ गई थी।

आशय स्पष्ट कीजिए

नदी तो खुद हमारे पास आ गई है।

बहुत-सी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाएंगी।

आशय-नदी में इतनी बाढ़ आ गई कि पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया।